

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2014 (कार्तिक 10, 1936)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2014 (KARTIKA 10, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 सितम्बर 2014

सं. डीपीपर्स.1/2014/0088/3/24/2014-पर्स-1----श्री डी.के. बाली, पुलिस उपाधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, एसीबी, पुणे ने
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर दिनांक 01.09.2014 के पूर्वाह्न से पुलिस उपाधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार
त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.1/2014/0089/3/3/2008----राष्ट्रपति, के.अ. ब्यूरो के निम्नलिखित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को उनके नाम
के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति की तिथि
1	डी.एस.शुक्ला	25.08.2014
2	रमनीश गीर	25.08.2014

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

दिनांक 23 सितम्बर 2014

सं. डीपीपर्स-I-2014/90/3/31/2014-पर्स-1---श्री टी.के.राय चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, एससी-3, नई दिल्ली ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 31.08.2014 के अपराहन से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स-I-2014/91/3/18/2014-पर्स-1--श्री के. राजागोपालन, पुलिस उपाधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, एसीबी, चेन्नई ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 31.08.2014 के अपराहन से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय,

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

संख्या-ओ.दो.3989/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी, डॉ० के० भरनीधर, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100/- ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 07.08.2014(पूर्वाहन) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विवेक वैद
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं० ई-16014/विधि/2012/कार्मिक-2/1125—भारत सरकार, खान मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India), केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर पांच साल के लिए उप महानिदेशक (पी० एण्ड ए०) पद में पी०बी०-4 रु. 37,400-67,000/- + रु. 10,000/-ग्रेड वेतन में नियुक्ति के फलस्वरूप, जयती घोष उप महानिरीक्षक, के औसुब इकाई, डी०एस०पी, दुर्गापुर (प०ब०) द्वारा दिनांक 30.09.2014 (अपराहन) से पदभार छोड़ दिया है। उक्त अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति विभाग में दिनांक 10.10.2014(पूर्वाहन) को पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

भारतीय लेखा तथा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल
तिरुवनंतपुरम, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं. ओई/ईएण्डसी/ईआईवी/14-15/195:-

क्र. सं.	नाम	पद नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती शांता कुमारी एन	लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.09.2014 (अधिवाषिता)
ह./- अपठनीय उप महालेखाकार (प्रशासन)			

वस्त्र मंत्रालय

हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

संख्या ए-23023/1/2013-डीसीएचएल/स्था-II---राष्ट्रपति, श्री डी. रवि को बुनकर सेवा केन्द्र, चेन्नई में दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक के लिये 15,600-39,100/- रु. (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/- रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-I (डिजाइन) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

परमाणु ऊर्जा विभाग

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 23 सितम्बर 2014

सं. पखनि-8/1/2007-भर्ती/ 1512---निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री. बी.के. मुखोपाध्याय, सहायक लेखाकार (पीबी-2: ₹ 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन ₹ 4,600/-) को स्थानापन्न रूप में दिनांक 17.10.2013 (पूर्वाहन) से 05.09.2014 (अपराहन) तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जमशेदपुर में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी (पीबी-2: ₹ 9,300-34,800/- + ग्रेड वेतन ₹ 4,800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए.एस. लक्ष्मण राव
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

दिनांक 25 सितम्बर 2014

सं. पखनि-4/2/2014-भर्ती/1510--राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में अगले आदेशों तक पदोन्नति द्वारा उनके नाम के सामने उल्लिखित ग्रेड एवं दर्शाई गई तिथियों से इसी निदेशालय में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड / वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	किस ग्रेड/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में पदोन्नति	पदोन्नति की तिथि
1.	गुहा बिकास कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड / वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	किस ग्रेड/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में पदोन्नति	पदोन्नति की तिथि
2.	के के सिन्हा	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
3.	कृष्णा राव वी एस आर वी	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	04-07-2014
4.	मंथनवार एस आर	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
5.	पांचाल पी के	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
6.	डॉ ए ए पटवर्धन	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
7.	राजेन्द्रन आर	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
8.	राजु एम	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
9.	डॉ अनिल कुमार सरधाना	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
10.	बालभास्कर राव आर	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
11.	डॉ चंचल सर्वज्ञ	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड / वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	किस ग्रेड/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में पदोन्नति	पदोन्नति की तिथि
12.	पद्म सुभाषिणी वी (डॉ.) श्रीमती	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
13.	राम मोहन रेड्डी बी	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
14.	डॉ. सत्येन्द्र कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
15.	शैलेन्द्र कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
16.	डॉ. समीर दुरानी	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
17.	वीणा कृष्णा (डॉ) श्रीमती	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
18.	जी एन हेगड़े	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
19.	जे श्रीनिवास राव	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
20.	सुजीत कुमार दाश	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,700	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4) ₹ 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन ₹ 8,900	01-07-2014
21.	वेलुस्वामी वी.	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100+ ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड / वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	किस ग्रेड/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में पदोन्नति	पदोन्नति की तिथि
22.	भूपेन्द्र सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
23.	दण्डेले पी. एस.	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
24.	संगीता भगत	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
25.	रणधीर सिंह रेधु	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
26.	सिक्ता पटनायक	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
27.	श्रीदेवि एम	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
28.	कृष्ण कुमार एम	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
29.	मनोज कुमार सान्डिल्य	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
30.	अमित कुमार जैन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
31.	सुरेश कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड / वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	किस ग्रेड/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में पदोन्नति	पदोन्नति की तिथि
32.	नीशमा ओझा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
33.	आशा के.	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
34.	प्रसाद एस.सी. पण्डित	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600	01-07-2013
35.	सुब्रमण्यम टी.वी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
36.	मुरुगेसन पी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
37.	रामभद्रय्या टी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
38.	पंकज कुमार गोयल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
39.	श्रीनिवासुलु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
40.	राकेश एस	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
41.	माधवी यादव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
42.	श्रीनिवास रेड्डी एम	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड / वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	किस ग्रेड/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में पदोन्नति	पदोन्नति की तिथि
43.	श्रीनिवास मूर्ती बी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
44.	हर्षा यल्ला	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
45.	सुशांत मुर्मू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
46.	मनीष शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
47.	देबोपम घोष	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
48.	शम्स अफीफ मो. शमीमुल अहसन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013
49.	संजय कुमार पाण्डेय	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) ₹ 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600	01-07-2013

ए.एस.लक्ष्मण राव

मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

सं. पखनि-4/3/2013-भर्ती/1511--राष्ट्रपति महोदय परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित व्यक्ति को वैज्ञानिक अधिकारी "सी" के रूप में अस्थायी हैसियत में अगले आदेशों तक वेतन-बैंड-3 रु.15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रु.5400/- पर नियुक्त करते हैं ।

क्रमांक	नाम	कार्यग्रहण तिथि
01.	श्री प्रवीण कुमार दिक्सित	01-08-2014 (F.N.)

ए.एस.लक्ष्मण राव

मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

दिनांक 29 सितम्बर 2014

सं. पखनि-8/1/2007-भर्ती/1569----निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री. एन. मुरली, सहायक लेखाकार (पीबी-2, ₹ 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन ₹ 4600) पखनि, हैदराबाद को स्थानापन्न रूप में दिनांक 12.06.2014 (पूर्वाहन) से 25.08.2014 (पूर्वाहन) तक इस निदेशालय में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी (पीबी-2: ₹ 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन ₹ 4800) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए.एस. लक्ष्मण राव

मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

ग्वालियर-474009, दिनांक 31 जुलाई 2014

सं. करं. एमसी/560(5)/2014/336—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं:—

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी के नाम
1	U74110MP2003PTC015999	लायसस फैशन्स ट्रेन्ड प्रायवेट लिमिटेड
2	U70101MP2011PTC025656	ए बी डब्लू मार्केटिंग एन्ड इन्फ्रा एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
3	U74900MP2010PTC024171	इजी रूपी एटीएम प्रायवेट लिमिटेड
4	U72200MP2010PTC024905	क्लीक बिल्डर्स बुकिंग प्रायवेट लिमिटेड
5	U74140MP2012PTC028514	अमोएवा मेनेजमेन्ट सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
6	U67120MP1995PTC009604	केआरडी सिक्यूरिटीज प्रायवेट लिमिटेड
7	U80300MP2011PTC026024	अक्षर कैरियर एन्ड टेक्निकल प्रोफेशनल प्रायवेट लिमिटेड
8	U25203MP2008PTC021419	विरदे इनलाईन फायरग्लास प्रायवेट लिमिटेड
9	U25202MP1990PTC005820	स्टरलिंग प्लास्टिक प्रायवेट लिमिटेड
10	U18101MP2007PTC019311	बी आर क्रीएशन्स प्रायवेट लिमिटेड
11	U74210MP2004PTC016916	आरएनएम इंजीनियर्स एन्ड कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
12	U70101MP1996PTC010736	रोहिणी आयरन ओर एन्ड स्टील प्रायवेट लिमिटेड
13	U45200MP2010PTC025071	कॉस्मो डेवकॉन प्रायवेट लिमिटेड
14	U63090MP2001PTC014895	बीना कैरियर्स प्रायवेट लिमिटेड
15	U26942MP1993PTC007533	कटनी सीमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
16	U52590MP2011PTC027096	क्यूवे सेल्स प्रायवेट लिमिटेड
17	U01117MP2003PTC015969	मलिका एरोमेटिक्स एन्ड मेडिकीनल प्लान्ट प्रायवेट लिमिटेड
18	U00112MP2004PTC016949	एग्रीटेक सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
19	U67120MP2008PTC021325	ग्रुप सिक्यूरिटीज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
20	U15314MP2004PTC017052	खाटोड एग्रीसीड्स प्रायवेट लिमिटेड
21	U05131MP2006PTC018545	जीएसएम डोनियर फैशन्स प्रायवेट लिमिटेड
22	U24232MP1993PTC007565	उपमेया केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी के नाम
23	U67120MP2007PTC019321	गुडविल स्टॉक ब्रोकर्स एन्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रायवेट लिमिटेड
24	U64202MP2000PTC014448	जीनियस आई नेट प्रायवेट लिमिटेड
25	U24139MP2003PTC016217	मोदी प्लास्टोकेम प्रायवेट लिमिटेड
26	U52100MP2010PTC023099	टच शाईन ड्रीम्स मार्केटिंग एन्ड सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
27	U24233MP2011PTC026094	केएलएम हर्बल्स प्रायवेट लिमिटेड
28	U24230MP2007PTC019917	अमेन्ड फार्मा प्रायवेट लिमिटेड
29	U50300MP2001PTC014732	जी.एम.मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड
30	U24233MP2012PTC028975	एडीव्ही फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
31	U52599MP2011PTC027388	एडीव्ही रियल लाईफ लाईन सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
32	U51109MP2011PTC025592	लेमन एक्सपोर्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
33	U74200MP2009PTC021821	रितुराज टेक्नोलॉजीज एन्ड सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
34	U01111MP1995PLC009112	इन्डो आईरिस फूड्स लिमिटेड
35	U36911MP2013PLC030655	सम्पूर्णनम गोल्ड इंडिया लिमिटेड
36	U25112MP1998PTC012876	ग्लोवल टायर ट्रेको इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
37	U65923MP2011PLC026025	दया फिनलीज लिमिटेड
38	U17111MP1997PTC011798	अजमेरा फैबटेक्स प्रायवेट लिमिटेड
39	U24110MP2010PTC023431	जय किसान फर्टिलाइजर्स इन्दौर प्रायवेट लिमिटेड
40	U24232MP1996PTC010646	केवीए फार्मा प्रायवेट लिमिटेड
41	U74900MP2007PTC019498	स्वराज ट्रेडर्स प्रायवेट लिमिटेड
42	U02921MP2006PTC018272	श्री आदित्य ईरीगेशन एन्ड प्लास्टिक प्रायवेट लिमिटेड
43	U14100MP1948PTC000748	टी सी बजन एन्ड कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
44	U52590MP2010PTC024130	स्मार्ट अर्निंग मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
45	U24211MP2012PTC027819	स्पोलियास केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
46	U15310MP2011PTC025393	आरसन्स फूड्स प्रायवेट लिमिटेड
47	U51109MP2003PTC016036	के.एल.एल.सी.मेटल्स एन्ड एलायज प्रायवेट लिमिटेड
48	U52392MP2003PTC015864	डोकोडेल इन्फो सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
49	U17121MP1997PTC012494	सोनी कॉटन फाईबर्स प्रायवेट लिमिटेड
50	U15549MP2013PTC030874	वनोरा बेवरेज प्रायवेट लिमिटेड
51	U20212MP2010PTC024983	मधानी प्लायटेक प्रायवेट लिमिटेड
52	U52342MP2011PTC026008	होनेस्टी हार्डवेयर एन्ड स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड
53	U24230MP2010PTC023043	नेफोराज फार्मा सोर्सज प्रायवेट लिमिटेड
54	U02423MP2004PTC016871	मेफोस केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
55	U74140MP2004PTC016303	राजकुमार कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
56	U01122MP2007PTC019362	डीजीएम ट्रेड हाउस प्रायवेट लिमिटेड
57	U01100MP2007PTC019389	जयमाता एग्रीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी के नाम
58	U51909MP2006PTC018867	ग्लीज सेल्स इन्दौर प्रायवेट लिमिटेड
59	U05510MP1997PTC011727	सृजन होटल्स प्रायवेट लिमिटेड
60	U72200MP2010PTC023188	सिसकॉम टेक्नोलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड
61	U01400MP2007PTC019602	कोप्स एन्ड कोप्स रियल एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
62	U85110MP2005PTC018118	मेडिटेक एड्स प्रायवेट लिमिटेड
63	U72200MP2011PTC027227	परफेक्ट वोकल सोल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड
64	U24230MP2012PTC027696	सिन्धना हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड
65	U67120MP2004PTC016933	अपटेक इन्वेस्टमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
66	U22121MP1998PTC012800	यथार्थ प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड
67	U24232MP1996PTC011157	चिनमयी केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
68	U27100MP2010PTC024125	गुड अर्थ मेटल्स प्रायवेट लिमिटेड
69	U24232MP2011PTC026403	एमडीएस हेल्थ केयर प्रायवेट लिमिटेड
70	U74900MP2012PTC029663	श्री सत्यसाई आर्शीवाद मेटरमोनियल सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
71	U15500MP2009PTC022688	मुस्कान ब्रेवरेज प्रायवेट लिमिटेड
72	U24233MP2010PTC024721	मुस्कान फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
73	U18109MP2010PTC024500	चुडीवाला फैशन एसेसरीज प्रायवेट लिमिटेड
74	U01400MP2007PTC019603	हरेभरे फील्ड्स प्रायवेट लिमिटेड
75	U01400MP2007PTC019600	ग्रीनरी एन्ड स्केनरी रियल एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
76	U50103MP1998ULL013139	डिजाइन ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड
77	U67120MP1990PTC006053	श्रीमाल होल्डिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
78	U67120MP2008PTC020658	जीके शॉयर्स एन्ड सिक्युरिटीज प्रायवेट लिमिटेड
79	U19201MP2010PTC024050	सन्दल्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
80	U28111MP1992PTC007111	श्री शान्ती फिक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड
81	U27106MP2008PTC020374	एनएमआई स्टील्स एन्ड एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड
82	U29200MP2008PTC020430	एडवांस लेसर टेक्नोलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड
83	U26913MP1981PTC001849	सेरामिक्स उद्योग प्रायवेट लिमिटेड
84	U45200MP2007PTC019329	सुजाता बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड
85	U45200MP2009PTC021832	बालाजी ड्रीलिंग एन्ड कन्सट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड
86	U15400MP2011PLC026520	जीवन रेखा फुड एन्ड ब्रेवरेजेज लिमिटेड
87	U72200MP2009PTC021687	एकोनिक्स इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेड
88	U20200MP2011PTC026906	एकोनिक्स टिम्बर्स प्रायवेट लिमिटेड
89	U00921MP2006PTC018328	ओम चैनल्स प्रायवेट लिमिटेड
90	U51504MP2008PTC020367	ओनस मार्केटिंग एन्ड सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
91	U01100MP2011PTC025657	अहेरन हाई ब्रिड प्रायवेट लिमिटेड
92	U52190MP2010PLC023584	विजन मेगा मार्केटिंग एन्ड रियल एस्टेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीआईएन	कम्पनी के नाम
93	U66010MP2005PLC017621	सूर्या हाई टेक इनश्योरेंस कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
94	U67120MP2009PLC021642	क्लाईमेक्स इनश्योरेंस एन्ड इन्वेस्टमेन्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
95	U85190MP2010PTC022887	मेनस्टे मार्केटिंग सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
96	U80302MP2010PTC023020	जेआर एजुकोम सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
97	U74140MP1986PLC003356	रूपी इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फायनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड
98	U70100MP2010PLC024414	लक्ष्मी सहारा हाउसिंग डेवलपमेन्ट इंडिया लिमिटेड
99	U25202MP1996PTC010428	कुबेर एक्सट्रुशन्स प्रायवेट लिमिटेड
100	U72200MP1998PTC013086	प्रसाद साफ्टवेयर प्रायवेट लिमिटेड
101	U15200MP2008PTC021000	जीवन ज्योति डेयरी एन्ड एलाइड प्रायवेट लिमिटेड
102	U60230MP2009PTC022432	सन ट्रॉन्सपोर्ट कम्पनी एन्ड ट्रेडर्स प्रायवेट लिमिटेड
103	U15122MP2006PTC018764	इकेशलाईफ फूड्स एन्ड बेवरेज प्रायवेट लिमिटेड
104	U72200MP2011PTC025876	इम्प्रेसननेट इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेड
105	U52590MP2009PTC021801	ईओन मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड

मुकेश कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

सं. क.र./प.ब./एफटीई/560/2014—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:—

क्र .सं.	सीएन.आई.	कम्पनी का नाम
1	U55101WB2010PTC151847	हलदर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U52392WB2003PTC095723	श्रेया सेल्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3	U45203WB1996PTC079515	आवर ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
4	U70109WB2011PTC162957	आरजी रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड
5	U70109WB2011PTC162958	सुरेका इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड
6	U72300WB2013PTC194653	क्रिटिकल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
7	U93010WB1948PTC017096	फ्री इंडिया स्टीम लॉडरी प्राइवेट लिमिटेड
8	U22219WB1989PTC047990	देबी ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड
9	U51109WB2008PTC127961	गुडव्यू विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड
10	U51109WB2008PTC126819	सुभश्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
11	U60230WB2010PTC154514	टीडीसी लोजीसटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U27106WB1988PTC044944	ब्राडेन लैम्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U17121WB2010PLC152510	सारा फैशन इंडिया लिमिटेड

क्र .सं.	सीएन.आई.	कम्पनी का नाम
14	U55101WB2012PTC182281	नेवस होटल (ईस्ट) प्राइवेट लिमिटेड
15	U70101WB2006PTC110006	डीएमएस कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
16	U51900WB2011PTC156660	टेलीरानी कम्यूनिकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
17	U74999WB2012PTC184161	आर्टव्यू डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U70102WB2012PTC187029	बेमिशाल इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U70109WB1997PTC084234	जीडी शॉ एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
20	U80221WB2010PTC143829	बिश्वदीप एडुकेयर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
21	U74900WB2013PTC189939	ब्रयन कमोडिटीज़ एंड डेरीवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U74900WB2013PTC189941	डोरेमोन कमोडिटीज़ एंड डेरीवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U74999WB2012PTC179549	फायरली डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U74999WB2012PTC179673	कार्डर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U60221WB1995PTC068384	इकस्लुशिव ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
26	U65993WB1974PTC029183	बनसी टायर्स (औटोमटिवे) प्राइवेट लिमिटेड
27	U74140WB2006PTC107272	एबल टेकनीकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
28	U51397WB2006PTC109234	क्राउन फार्मासीयूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U93000WB2012PTC174560	ग्राफफीती एंडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
30	U72300WB2012PTC188020	देबानशु इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
31	U51109WB2008PTC126970	स्काइलाइट विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
32	U23109WB1986PTC040509	आर्क मिनेरल्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U74900WB2013PTC194292	एम.आई. फिलिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
34	U74910WB2007PTC112703	एसएसपीजी मैन मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
35	U74999WB2011PTC164486	ऑलटाइम ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
36	U74999WB2011PTC164484	शिवराम डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U74999WB2011PTC164485	राइटवे कमोसेल प्राइवेट लिमिटेड
38	U70109WB2012PTC185955	लिंगवैस इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U70102WB2012PTC186241	टाइमलिंग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U52190WB2012PTC185630	फूलगिड विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
41	U52100WB2014PTC202168	अलपीन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
42	U72200WB2009PTC138573	आइट्रानसक्ट टेक्नोलोजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
43	U70109WB2012PTC184593	शीशेदानी होम प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधरी
 सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
 पश्चिम बंगाल

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 8th October 2014

No. F. 20/2014-SCA(1)—Shri Ashok Kumar Rehlan, Additional Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of 30.09.2014 on his attaining the age of superannuation.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn. I)

No. F. 20/2014-SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Praveen Kumar, an officer of Delhi Higher Judicial Service, as Registrar, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of 3rd October, 2014.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn. I)

New Delhi, the 9th October 2014

No. F. 20/2014-SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote Ms. Swaran Bala, Senior Court Assistant as Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) with effect from the afternoon of 08.10.2014.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 15th September 2014

No. DPPERS. I/2014/0088/3/24/2014-PERS.I.—Shri D. K. Bali, Deputy Supdt. of Police, CBI, ACB, Pune has relinquished the charge of the post of Deputy Supdt. of Police, CBI with effect from the forenoon of 01.09.2014 on voluntary retirement.

DEEPIKA SURI
Dy. Director (Pers.)

No. DPPERS.I/2014/0089/3/3/2008—The President is pleased to appoint the following Sr. SsP, CBI to the post of Deputy Inspector General of Police in the Central Bureau of Investigation with effect from the dates mentioned against each.

Sl. No.	Name of the Officer S/Shri	Date of joining
1.	D. S. Shukla	25.08.2014
2.	Ramnish Geer	25.08.2014

DEEPIKA SURI
Dy. Director (Pers.)

The 23rd September 2014

No. DPPERS.I/2014/90/3/31/2014-PERS.I.—Shri T. K. Roy Chaudhury, Deputy Supdt. of Police, CBI, SC-III, New Delhi has relinquished the charge of the post of Deputy Supdt. of Police, CBI with effect from the afternoon of 31.08.2014 on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Director (Pers.)

No. DPPERS.I./2014/91/3/18/2014-PERS.I.—Shri K. Rajagopalan, Deputy Supdt. of Police, CBI, ACB, Chennai has relinquished the charge of the post of Deputy Supdt. of Police, CBI with effect from the afternoon of 31.08.2014 on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Director (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 14th October 2014

No. O.II-3989/2014-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. K. Bharanidhar, selected candidate of MOSB-2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity w.e.f. 07.08.2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

VIVEK VAID
DIG (Pers)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 15th October 2014

No. E-16014/MISC/2012/Pers.II/1125—Consequent upon appointment as Deputy Director General (P&A) in Govt. of India, Ministry of Mines, Geological Survey of India, Central Head Quarter Kolkata on deputation basis for a period of five years in PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + 10,000/- Grade Pay, Ms. Jayati Ghosh, has relinquished the charge of the post of Deputy Inspector General, CISF Unit DSP Durgapur w.e.f. 30.09.2014 (AN) and assumed the charge in borrowing organization on 10.10.2014 (FN).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 14th October 2014

No. OE(E&C)/EIV/P/14-15/95—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. Santhakumary N.	Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	30.09.2014 (AN) (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 13th October 2014

No. A-23023/1/2013-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri D. Ravi as Assistant Director Gr. I (Designs) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in the Weavers' Service, Centre, Chennai w.e.f. the forenoon of 13th October 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU
Addl. Development Commissioner (HL)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500016, the 23rd September 2014

No. AMD-8/1/2007-Rectt/1512—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri B. K. Mukhopadhyay, Assistant Accountant (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,600/-) AMD, Jamshedpur to officiate as Assistant Accounts Officer (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/-), in the same Directorate on ad hoc basis with effect from the forenoon of 17.10.2013 to 05.09.2014 (AN).

S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

The 25th September 2014

No. AMD-4/2/2014-Rectt/1510—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers / Engineers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, by promotion to the grades indicated against their name in the same Directorate in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against each until further orders:

Sl. No.	Name S/Shri	Present Grade / Pay Band & Grade Pay	Promotion to Grade / Pay Band & Grade Pay	Date of Promotion
1.	GUHA BIKASH KUMAR	SO/F (PB-4) ₹ 37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
2.	SINHA K K	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
3.	KRISHNA RAO V S R V	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	04-07-2014
4.	MANTHANWAR S R	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
5.	PANCHAL P K	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
6.	PATWARDHAN A A Dr.	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
7.	RAJENDRAN R	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
8.	RAJU M	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
9.	ANIL KUMAR SARDANA Dr.	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
10.	BALA BHASKARA RAO R	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014

Sl. No.	Name S/Shri	Present Grade / Pay Band & Grade Pay	Promotion to Grade / Pay Band & Grade Pay	Date of Promotion
11.	CHANCHAL SARBAJNA Dr.	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
12.	PADMA SUBASHINI V (Dr.)Smt.	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
13.	RAM MOHAN REDDY B	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
14.	SATYENDRA KUMAR Dr.	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
15.	SHAILENDRA KUMAR	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
16.	SMEER DURANI Dr.	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
17.	VEENA KRISHNA (Dr.) Smt.	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
18.	HEGDE G N	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
19.	SRINIVASA RAO J	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
20.	SUJIT KUMAR DASH	SO/F (PB-4) ₹37,400-67,000 + GP ₹8,700	SO/G (PB-4) ₹37,400-67,000 + G.P. ₹8,900	01-07-2014
21.	VELUSWAMY V.	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
22.	BHUPINDER SINGH	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
23.	DANDELE P.S.	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
24.	SANGEETA BHAGAT	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
25.	RANDHIR SINGH REDHU	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013

Sl. No.	Name S/Shri	Present Grade / Pay Band & Grade Pay	Promotion to Grade / Pay Band & Grade Pay	Date of Promotion
26.	SIKTA PATNAIK	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
27.	SRIDEVI M	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
28.	KRISHNA KUMAR M	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
29.	MANOJ KUMAR SANDILYA	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
30.	AMIT KUMAR JAIN	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
31.	SURESH KUMAR	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
32.	NISHMA OJHA	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
33.	ASHA K	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
34.	PRASAD S.C. PANDIT	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	SO/E (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹7600	01-07-2013
35.	SUBRAHMANYAM T.V.	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
36.	MURUGESAN P	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
37.	RAMABHADRAIAH T	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
38.	PANKAJ KUMAR GOEL	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013

Sl. No.	Name S/Shri	Present Grade / Pay Band & Grade Pay	Promotion to Grade / Pay Band & Grade Pay	Date of Promotion
39.	SRINIVASULU	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
40.	RAKESH S.	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
41.	MADHAVI YADAV	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
42.	SREENIVASA REDDY M.	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
43.	SRINIVASA MURTHY B.	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
44.	HARSHA YALLA	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
45.	SUSHANT MURMU	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
46.	MANISH SHARMA	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
47.	DEBOPAM GHOSH	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
48.	SHAMS AFIF MD SHAMIMUL AHSAN	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013
49.	SANJAY KUMAR PANDEY	SO/C (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹5400	SO/D (PB-3) ₹15600 – 39100 + GP ₹6600	01-07-2013

A.S.LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

No. AMD-1/5/2014-Rectt./1511—The President is pleased to appoint the undermentioned individual as SCIENTIFIC OFFICER-C in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, in a

temporary capacity in the Pay Band-3 ₹ 15,600-39,100 + ₹ 5400/- Grade Pay with effect from the date mentioned below until further orders: —

Sl. No.	Name	Date of Assumption Of Charge
01.	Shri Praveen Kumar Dixit	01-08-2014 (F.N.)

A.S.LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

The 29th September 2014

No.AMD-8/1/2007-Rectt/1569—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri N. Murali, Assistant Accountant (PB-2, ₹9,300-34,800 plus Grade Pay ₹4600), AMD, Hyderabad to officiate as Assistant Accounts Officer (PB-2, ₹9,300—34,800 plus Grade Pay ₹4,800), in the same Directorate on ad hoc basis with effect from the forenoon of 12.06.14 to 25.08.2014 (FN).

A.S.LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act 1956 and of following Companies

Gwalior-474009, the 31st July 2014

No. RoC-GC/u/s. 560 (5)/2014/1336—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been Struck-off from the Register and the said companies are dissolved:--

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
1	U74110MP2003PTC015999	LLYSAS FASHION TRENDZ PRIVATE LIMITED
2	U70101MP2011PTC025656	A B W MARKETING AND INFRA ESTATE PRIVATE LIMITED
3	U74900MP2010PTC024171	EZEE RUPEE ATM PRIVATE LIMITED
4	U72200MP2010PTC024905	CLICK-BUILDER BOOKING PRIVATE LIMITED
5	U74140MP2012PTC028514	AMOEBa MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	U67120MP1995PTC009604	KRD SECURITIES PVT LTD
7	U80300MP2011PTC026024	AKSHAR CARRIER AND TECHNICAL PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED
8	U25203MP2008PTC021419	Verde Inline Fibreglass Private Limited
9	U25202MP1990PTC005820	STERLING PLASTPACKS PVT LTD
10	U18101MP2007PTC019311	B R CREATIONS PRIVATE LIMITED
11	U74210MP2004PTC016916	RNM ENGINEERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
12	U70101MP1996PTC010736	ROHINI IRON ORE AND STEELS PRIVATE LIMITED
13	U45200MP2010PTC025071	COSMO DEV-CON PRIVATE LIMITED
14	U63090MP2001PTC014895	BEENA CARRIERS PRIVATE LIMITED
15	U26942MP1993PTC007533	KATNI CEMENTS PVT LTD

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
16	U52590MP2011PTC027096	Cube Sales Private Limited
17	U01117MP2003PTC015969	MALIKA AROMATICS AND MEDICINAL PLANTS PRIVATE LIMITED
18	U00112MP2004PTC016949	AGRITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
19	U67120MP2008PTC021325	GROUP SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED
20	U15314MP2004PTC017052	KHATOD AGRISEEDS PRIVATE LIMITED
21	U05131MP2006PTC018545	GSM DONIAR FASHION PRIVATE LIMITED
22	U24232MP1993PTC007565	UPMEYA CHEMICALS PVT LTD
23	U67120MP2007PTC019321	GOODWILL STOCK BROKERS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
24	U64202MP2000PTC014448	GENIOUS I-NET PRIVATE LIMITED
25	U24139MP2003PTC016217	MODI PLASTOCHEM PRIVATE LIMITED
26	U52100MP2010PTC023099	TOUCH SHINE DREAMS MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
27	U24233MP2011PTC026094	KLM Herbals Private Limited
28	U52599MP2011PTC027388	ADV REAL LIFELINE SERVICES PRIVATE LIMITED
29	U51109MP2011PTC025592	LEMON EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
30	U74200MP2009PTC021821	RITURAJ TECHNOLOGIES & SERVICES PRIVATE LIMITED
31	U01111MP1995PLC009112	INDO IRISH FOODS LIMITED
32	U36911MP2013PLC030655	SAMPURNAM GOLD (INDIA) LIMITED
33	U25112MP1998PTC012876	GLOBAL TYRE TRACO INDIA PRIVATE LIMITED
34	U65923MP2011PLC026025	DAYA FINLEASE LIMITED
35	U17111MP1997PTC011798	AJMERA FABTEX PVT LTD
36	U24110MP2010PTC023431	Jai Kisan Fertilizers (Indore) Private Limited
37	U24232MP1996PTC010646	KVA PHARMA Private LIMITED
38	U24230MP2007PTC019917	AMEND PHARMA PRIVATE LIMITED
39	U50300MP2001PTC014732	G.M. Motors PRIVATE LIMITED
40	U24233MP2012PTC028975	ADV Pharmaceuticals Private Limited
41	U74900MP2007PTC019498	SWARAJ TRADERS PRIVATE LIMITED
42	U02921MP2006PTC018272	SHRI ADITYA IRRIGATION AND PLASTECH PRIVATE LIMITED
43	U14100MP1948PTC000748	T C BAJAN AND COMPANY PRIVATE LIMITED
44	U52590MP2010PTC024130	SMART EARNING MARKETING PRIVATE LIMITED
45	U24211MP2012PTC027819	SEPOLIYA'S CHEMICAL PRIVATE LIMITED
46	U15310MP2011PTC025393	RSONS FOODS PRIVATE LIMITED
47	U51109MP2003PTC016036	K.L.L.C. METALS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
48	U52392MP2003PTC015864	DOCODEAL INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
49	U17121MP1997PTC012494	SONI COTTON FIBRES PRIVATE LIMITED
50	U15549MP2013PTC030874	VANORA BEVERAGE PRIVATE LIMITED
51	U20212MP2010PTC024983	Madhani Plytech Private Limited

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
52	U52342MP2011PTC026008	HONESTY HARDWARE & STEELS PRIVATE LIMITED
53	U24230MP2010PTC023043	NEPHOROS PHARMA SOURCES PRIVATE LIMITED
54	U02423MP2004PTC016871	MEPHOS CHEMICALS PRIVATE LIMITED
55	U74140MP2004PTC016303	RAJURKAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
56	U01122MP2007PTC019362	DGM TRADE HOUSE PRIVATE LIMITED
57	U01100MP2007PTC019389	JAI MAA AGRITRADE PRIVATE LIMITED
58	U51909MP2006PTC018867	GLITZ SALES (INDORE) PRIVATE LIMITED
59	U05510MP1997PTC011727	SRAJAN HOTELS PVT LTD
60	U72200MP2010PTC023188	Syscon Technologies Private Limited
61	U01400MP2007PTC019602	Crops & Crops Real Estate Private Limited
62	U85110MP2005PTC018118	MEDITECH AIDS PVT.LTD.
63	U72200MP2011PTC027227	Perfect Vocal Solutions Private Limited
64	U24230MP2012PTC027696	SINCHNA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
65	U67120MP2004PTC016933	UPTICK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
66	U22121MP1998PTC012800	YATHARTH PRAKASHAN PRIVATE LIMITED
67	U24232MP1996PTC011157	CHINMAYEE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
68	U27100MP2010PTC024125	GOOD EARTH METALS PRIVATE LIMITED
69	U24232MP2011PTC026403	MDS HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
70	U74900MP2012PTC029663	SHREE SATYASAI ASHIRWAD MATRIMONIYAL SERVICES PRIVATE LIMITED
71	U15500MP2009PTC022688	Muskaan Breweries Private Limited
72	U24233MP2010PTC024721	Muskan Pharmaceuticals Private Limited
73	U18109MP2010PTC024500	Chudiwala Fashion Accessories Private Limited
74	U01400MP2007PTC019603	Hare Bhare Fields Private Limited
75	U01400MP2007PTC019600	Greenery & Scenery Real Estate Private Limited
76	U50103MP1998ULL013139	DESIGN AUTO DISTRIBUTIONS LIMITED
77	U67120MP1990PTC006053	SHRIMAL HOLDINGS PVT LTD
78	U67120MP2008PTC020658	GK SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMETED
79	U19201MP2010PTC024050	SANDAL'S INDIA PRIVATE LIMITED
80	U28111MP1992PTC007111	SHREE SHANTI FIXTURES PVT LTD
81	U27106MP2008PTC020374	NMI STEEL & ENERGY PRIVATE LIMITED
82	U29200MP2008PTC020430	ADVANCED LASER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
83	U26913MP1981PTC001849	CERAMICS UDYOG PRIVATE LIMITED
84	U45200MP2007PTC019329	SUJATA BUILDCON PRIVATE LIMITED
85	U45200MP2009PTC021832	Balaji Drilling & Construction Private Limited
86	U15400MP2011PLC026520	Jeevan Rakha Food & Beverages Limited
87	U72200MP2009PTC021687	Aconix Infotech Private Limited
88	U20200MP2011PTC026906	Aconix Timber Private Limited

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
89	U00921MP2006PTC018328	OM CHHANELS PRIVATE LIMITED
90	U51504MP2008PTC020367	ONUS MARKETING & SERVICES PRIVATE LIMITED
91	U01100MP2011PTC025657	AHERNN HI-BRED PRIVATE LIMITED
92	U52190MP2010PLC023584	VISION MEGA MARKETING & REAL ESTATE LIMITED
93	U66010MP2005PLC017621	SURYA HI-TECH INSURANCE CONSULTANTS LIMITED
94	U67120MP2009PLC021642	CLIMAX INSURANCE AND INVESTMENT SERVICES INDIA LIMITED
95	U85190MP2010PTC022887	MAINSTAY MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
96	U80302MP2010PTC023020	JR EDUCON SERVICES PRIVATE LIMITED
97	U74140MP1986PLC003356	RUPEE INVESTMENT & FINANCIAL SERVICES LTD
98	U70100MP2010PLC024414	LAXMI SAHARA HOUSING DEVELOPMENT INDIA LIMITED
99	U25202MP1996PTC010428	KUBER EXTRUSIONS PVT LTD
100	U72200MP1998PTC013086	PRASAD SOFTWARE PRIVATE LIMITED
101	U15200MP2008PTC021000	JEEVAN JYOTI DAIRY & ALLIED PRIVATE LIMITED
102	U60230MP2009PTC022432	SUN TRANSPORT COMPANY & TRADER PRIVATE LIMITED
103	U15122MP2006PTC018764	SQUASHLIFE FOODS AND BEVERAGES PVT LTD
104	U72200MP2011PTC025876	IMPRESIONANTE INFOTECH PRIVATE LIMITED
105	U52590MP2009PTC021801	EAON MARKETING PRIVATE LIMITED

MUKESH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 13th October 2014

No. RoC/WB/FTE/560/2014—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 43 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved:--

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U55101WB2010PTC151847	HALDER HOTELS PRIVATE LIMITED
2	U52392WB2003PTC095723	SHREYA SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3	U45203WB1996PTC079515	HOOR GLASS PVT LTD
4	U70109WB2011PTC162957	RG REALCON PRIVATE LIMITED
5	U70109WB2011PTC162958	SUREKA INFRACON PRIVATE LIMITED
6	U72300WB2013PTC194653	CRITICAL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
7	U93010WB1948PTC017096	FREE INDIA STEAM LAUNDRY PVT LTD
8	U22219WB1989PTC047990	DEBI OFFSET PVT LTD
9	U51109WB2008PTC127961	GOODVIEW VINCOM PRIVATE LIMITED
10	U51109WB2008PTC126819	SUBHSHREE MARKETING PRIVATE LIMITED
11	U60230WB2010PTC154514	TDC LOGISTICS PRIVATE LIMITED
12	U27106WB1988PTC044944	BRADEN LABS PVT LTD

SL No.	CIN	Name of the Company
13	U17121WB2010PLC152510	SARRA FFASHION INDIA LIMITED
14	U55101WB2012PTC182281	NEVUS HOTEL (EAST) PRIVATE LIMITED
15	U70101WB2006PTC110006	DMS CONSTRUCTION PVT LTD
16	U51900WB2011PTC156660	TELERANI COMMUNICATION (INDIA) PRIVATE LIMITED
17	U74999WB2012PTC184161	ARTVIEW DEALERS PRIVATE LIMITED
18	U70102WB2012PTC187029	BEMISHAL INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
19	U70109WB1997PTC084234	GEEDEE SHAW & CO. PRIVATE LIMITED
20	U80221WB2010PTC143829	BISHWADEEP EDUCARE INSTITUTE PRIVATE LIMITED
21	U74900WB2013PTC189939	BRYN COMMODITIES & DERIVATIVES PRIVATE LIMITED
22	U74900WB2013PTC189941	DORAEMON COMMODITIES & DERIVATIVES PRIVATE LIMITED
23	U74999WB2012PTC179549	FAIRLY DEALERS PRIVATE LIMITED
24	U74999WB2012PTC179673	CARDER DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
25	U60221WB1995PTC068384	EXCLUSIVE TRANSPORT COMPANY PVT. LTD.
26	U65993WB1974PTC029183	BANSI TYRES (AUTOMATIVE) PVT LTD
27	U74140WB2006PTC107272	ABLE TECHNICAL SERVICES PVT LTD
28	U51397WB2006PTC109234	CROWN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
29	U93000WB2012PTC174560	GRAFFITI ADCOM PRIVATE LIMITED
30	U72300WB2012PTC188020	DEBANSHU INFOTECH PRIVATE LIMITED
31	U51109WB2008PTC126970	SKYLIGHT VINIMAY PRIVATE LIMITED
32	U23109WB1986PTC040509	ARKE MINERALS & CHEMICALS PVT LTD
33	U74900WB2013PTC194292	M. I. FILLING CENTRE PRIVATE LIMITED
34	U74910WB2007PTC112703	SSPG MAN MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
35	U74999WB2011PTC164486	ALLTIME TRADELINK PRIVATE LIMITED
36	U74999WB2011PTC164484	SHIVRAM DEALERS PRIVATE LIMITED
37	U74999WB2011PTC164485	RIGHTWAY COMMOSALE PRIVATE LIMITED
38	U70109WB2012PTC185955	LINKWISE ESTATES PRIVATE LIMITED
39	U70102WB2012PTC186241	TIMELINK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
40	U52190WB2012PTC185630	FULGID VINIMAY PRIVATE LIMITED
41	U52100WB2014PTC202168	ALPINE INFOTRADE PRIVATE LIMITED
42	U72200WB2009PTC138573	ITRANSACT TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
43	U70109WB2012PTC184593	SHEESHKEDANI HOME PRIVATE LIMITED

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in